

कक्षा-X/XII का परीक्षा परिणाम कैसे प्राप्त (एक्सेस) करें

1. नेट पर परीक्षा परिणाम

पिछले वर्षों के अनुसार, इस वर्ष भी सी.बी.एस.ई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तकनीकी समर्थन के साथ नेट पर अपने परीक्षा परिणामों की मेजबानी करता है। विद्यार्थी निम्नलिखित वेबसाइटों के माध्यम से अपने परीक्षा परिणाम प्राप्त (एक्सेस) कर सकते हैं :

www.results.nic.in

www.cbseresults.nic.in

www.cbse.nic.in

बोर्ड के साथ पहले से पंजीकृत ई-मेल आई.डी पर विद्यालय (स्कूल) अपने आप ही अपने पूरे विद्यालय के परीक्षा परिणाम प्राप्त कर लेंगे।

2. सी.बी.एस.ई डिजिटल और मोबाइल की ओर बढ़ रहा है

- वर्ष 2016 में शुरू किया गया, इस वर्ष भी सी.बी.एस.ई कक्षा-X तथा कक्षा-XII के डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज़ (मार्कशीट, माइग्रेशन प्रमाणपत्र और उत्तीर्ण प्रमाणपत्र) अपने स्वयं के शैक्षणिक रिपॉजिटरी "परिणाम मंजूषा" के माध्यम से प्रदान करेगा, जिसे <https://digilocker.gov.in> पर डिजी लॉकर (Digi Locker) द्वारा एकीकृत किया गया है।
- डिजी लॉकर (Digi Locker) खाता क्रेडेंशियल्स विद्यार्थियों को सी.बी.एस.ई के साथ पंजीकृत उनके मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस के माध्यम से भेजे जाएंगे।
- विद्यार्थी उमंग (UMANG) मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भी अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं जो Android, IOS और विंडोज आधारित स्मार्ट फोन पर उपलब्ध है।
- सी.बी.एस.ई कक्षा-X तथा कक्षा-XII के परीक्षा परिणाम एंड्रॉइड मोबाइल ऐप "डिजीरिजल्ट्स" के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे।

3. आई.वी.आर.एस (इंटरएक्टिव वॉइस रेसपॉन्स सिस्टम) के माध्यम से परीक्षा परिणाम

आई.वी.आर.एस के माध्यम से एन.आई.सी. के जिन टेलीफोन नंबर के माध्यम से परीक्षा परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, उनका विवरण निम्नलिखित है :

(क) राष्ट्रीय सूचना केंद्र

टेलीफोन नंबर (नंबरों)	शामिल क्षेत्र
24300699	-दिल्ली में स्थानीय उपभोक्ता (सब्सक्राइबर्स) हेतु
011-24300699	-देश के अन्य हिस्सों के उपभोक्ताओं (सब्सक्राइबर्स) हेतु

(ख) एस.एम.एस

- निम्नानुसार मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस भेजकर कक्षा-X का परीक्षा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है :

Cbse10<rollno<schno><center no> on Mobile No. 7738299899

- निम्नानुसार मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस भेजकर कक्षा-XII का परीक्षा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है :

Cbse12<rollno<schno><center no> on Mobile No. 7738299899

4. गूगल खोज इंजन (Google Search Engine) www.google.co.in के माध्यम से परीक्षा परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं ।
5. एस.एम.एस आयोजक ऐप (SMS organizer app) के माध्यम भी परीक्षा परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जिन्हें प्ले स्टोर (Play Store) <https://aka.ms/sms> से डाउनलोड किया जा सकता है।
